



राजस्थान सरकार

# हवामहल

(कोरोना समय में बच्चों का झरोखा)

27 फरवरी 2021: शनिवार: अंक - 44



RSCERT Udaipur




## चिड़िया की भायली

आज की कहानी

चिड़िया और चुहिया ऐसी भाएली थी जिनमे ज्यादा नहीं पटती थी, पर एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। ऐसा क्या है जो दोनों की दोस्ती बनाए हुए है...इस कहानी को सुनने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

3 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | एकलव्य



## लाल ग्रह

आज की कहानी

"एक बाघ बाजरे के खेतों में आकर मजे से रहने लगा। फिर गाँव में बहुत कुछ हुआ। बच्चों ने उसे कई बार देखा। 13 साल बाद लाल ग्रह आसमान में दिखा, फिर क्या क्या हुआ? जानने के लिए कहानी के चित्र पर क्लिक करें और कहानी सुनें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | साइकिल पत्रिका




## गप्पी साइकिल वाला

आज की किताब

"गप्पी चाचा को कुछ बढ़ा-चढ़ा कर बोलने की आदत है। जब वे इफ़्त और राशिद को नदी में मगरमच्छ होने की बात बताते हैं तो दोनों को यकीन नहीं होता है। दोनों गप्पी चाचा को सच में मगरमच्छ दिखाने की बात कहते हैं। इस मज़ेदार कहानी को पढ़ने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | रूम टू रीड



## बोतल स्पिनर

आज की गतिविधि

"इस वीडियो के माध्यम से हम एक सरल और आनंदमय स्पिनर बनाना सीखेंगे। इसके लिए अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतल, कैंची, सुई और सजावटी रंग टेप की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि को आपके लिए अरविंद गुप्ता जी प्रस्तुत कर रहे हैं। गतिविधि के वीडियो के लिए चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | अरविंद गुप्ता टॉयज़



## मूल्यांकन और सीखना

टीचर्स कॉर्नर

"शहनाज़ का यह लेख सतत व समग्र मूल्यांकन पर केन्द्रित है। वे बताती हैं कि सतत व समग्र मूल्यांकन की बात सभी विद्यालयों में होती है लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है। वे अपने अनुभवों के आधार पर बताती हैं कि सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है?"

शिक्षकों के लिए | पाठशाला



#घरमेंरहें



#आनन्दसेपढ़ें

**सूचना** - हवामहल के माध्यम से कहानियों के प्रसारण हेतु शिक्षक साथी अपनी पसंदीदा कहानियों का ऑडियो, किताब एवं लेखक के विवरण सहित हमसे [hawamahal.rscert@gmail.com](mailto:hawamahal.rscert@gmail.com) पर साझा करें। ऑडियो की अवधि 5 मिनट से अधिक न हो एवं गुणवत्ता अच्छी हो।

आज का अंक आपको कैसा लगा ?



अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए सुझाव पेटिका के चित्र पर क्लिक करें।